



UP

MINE MITRA

User Manual

For Applicant

Stock License



For
Directorate of Geology & Mining, GoUP

By



In association with



MARGSOFT Technologies (P) Ltd.
www.margsoft.com

Purpose of the Document

This User Manual aims to familiarize you with the functional processes of the Web-based Application of UP MineMitra. It will also explain all the information aspects related to the online services of the UP MineMitra. The document is intended for Applicant.

This document shall enable you to understand the process flow along with functionality of the UP MineMitra.

ABOUT MARGSOFT



MARGSOFT Technologies (P) Ltd. is an ISO certified company, leading in the Information Technology Consulting, Services, and Business Process Outsourcing an organization that envisioned and instigated the adoption of flexible business practices which enable our clients to operate efficiently and effectively.

Over the last 2 decades, MARGSOFT has established itself as a premier IT solution and service provider with offices in India and abroad. Our breadth of experience comes from working extensively with central and state government departments as well as leading organizations in the private sector.

20yrs

Market
Experience

90+

Team



ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013



International
Presence



National
Award Winner

Empaneled with



Registered with



About the Department



Directorate of Geology & Mining, GoUP

The Directorate of Geology & Mining is actively engaged in search of mineral wealth as well as promotion of scientific development of mineral resources along with conservation development of mineral-based industries in the state of Uttar Pradesh. The Department aims to provide access of minerals for sustainable economic growth, equal benefit and prosperity to all the people of Uttar Pradesh, and to formulate policies legislations that effectively regulate the activities involved in the Mining and Geology sector.

Department Information

Directorate of Geology & Mining,
Khanij Bhawan, 27/8 Raja Ram Mohan Rai Marg, Lucknow, U.P.

Dr. Roshan Jacob (IAS)

Director, Geology and Mining, U.P, Lucknow

APPLICANT PANEL

1. The applicant visits the departmental portal <https://www.upminemitra.in> and clicks on “Apply Now” button of the **Stock License** block, highlighted in **Red** as seen in the following screenshot, to apply for Stock License.

The screenshot displays the UP Mine Mitra website interface. At the top, a navigation bar includes the date and time (Monday, 21 Sep, 2020 03:56:38 PM), the text "About UPMine Mitra", and buttons for "Register", "Login", and "Support". Below this is the website's header with the UP Mine Mitra logo, the text "Online Services for Citizen", and a sub-header "An Initiative of Directorate of Geology & Mining, GoUP". A secondary navigation bar contains a button labeled "Apply For Online Services".

The main banner features a large yellow background with the text "Reduce Risk COVID-19 INFECTION" and "Prevention From Virus". To the right of the text are four circular icons: a pair of lungs, a hand being washed with soap, a virus particle, and a person wearing a face mask.

Below the banner, there are four service blocks, each with a header image, a title, a description, and an "Apply Now" button:

- Building/Development Projects**: भवन / विकास परियोजना. भवन विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में खुदाई के दौरान प्राप्त उपखनिजों के निस्तारण हेतु।
- Mineral Retailer Registration**: फुटकर उपखनिज विक्रेता पंजीकरण. १०० घन मीटर से कम खनिज के भण्डारण के पंजीकरण हेतु।
- Vehicle Registration**: वाहन पंजीकरण. खनिजों के परिवहन के लिए वाहनों का पंजीकरण.
- Krishi Bhoomi**: कृषि भूमि. भूमिधरी कृषिकीया भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमे से कोई भी, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु।

At the bottom left, there is a status message: "Waiting for x.bidswitch.net..."



Stock License

खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति

१०० घन मीटर से ज्यादा खनिज के भण्डारण की अनुज्ञप्ति के लिए।

Apply Now




Niji Bhoomi

निजी भूमि

नदी तल स्थित निजी भूमि, जिसमें बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो।

Apply Now



Mining Plan

खनन योजना

खनन योजना के अनुमोदन हेतु।

Apply Now



Deed Execution

विलेख निष्पादन

ऑनलाइन आवेदन एल० औ० ऑप० से विलेख निष्पादन के लिए।

Apply Now



Ordinary Soil < 100 Cubic Meters

सा० मिट्टी १०० घन मी० तक

साधारण मिट्टी १०० घन मी० तक के खनन / परिवहन के लिए पंजीकरण

Apply Now



Ordinary Soil > 100 Cubic Meters

सा० मिट्टी १०० घन मी० से अधिक

साधारण मिट्टी १०० घन मी० से ज्यादा के खनन / परिवहन की अनुज्ञप्ति के लिए।

Apply Now



2. On clicking **Apply Now** the applicant lands on the page which describes the process flow, requirements and checklist of documents regarding the process of obtaining approval/permission for a stock license of minerals. After going through the requirements and when he/she is ready with the documents he/she will click on “**Apply Now**” button highlighted in **Red**.

Monday, 21 Sep, 2020 04:01:32 PM About UPMine Mitra Register Login Support

UP MINE MITRA Online Services for Citizen
An Initiative of Directorate of Geology & Mining, GoUP

Apply For Online Services

Stock License (खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति) Home > Stock License

Permission for a Stock License of minerals, with capacity above 100 cubic meters
१०० घन मीटर से ज्यादा खनिज के भण्डारण की अनुज्ञप्ति के लिए।

APPLY NOW

Introduction

In order to receive, hold, stock, sell, trade or use mineral in quantity over 100 cubic meters an application will have to be submitted to the office of the District Magistrate of the district where the said activity will be done. If the applicant applies for the minerals whose source is not under the purview of the District Magistrate, for the purpose of trading or stocking, the applicant will have give an undertaking mentioning the source and place of obtaining the mineral.

The district magistrate after receiving the application will get the required enquiry done for the compliance of the rules and regulations laid down by the government from time to time. Post the enquiry if the application is found to be fit then the DM would issue the Permit for a maximum of 3 years after getting the deposit chalan of 10% of royalty amount, with the following clauses.

परिचय

ऐसे किसी व्यक्ति, जो कोई खनिज प्राप्त करना, धारित करना, भण्डारित करना, विक्रित करना चाहता हो, उसका व्यापार करना चाहता हो या उसे अन्यथा रूप में व्यवहृत करना चाहता है, को भण्डारण की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा। यदि वह ऐसे किसी खनिज जिसकी प्राप्ति का श्रोत जिलाधिकारी की अधिकारिता में न हो, के भण्डारण और व्यापार या भण्डारण और उपयोग हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन करता है तो उसे खनिज प्राप्ति के श्रोत / स्थान का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिलाधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर ऐसी जाँच जैसा की वह उचित समझे, करने के पश्चात और आवेदित खनिज की मात्रा में १० प्रतिशत रॉयल्टी की प्रतिभूति जमा की प्राप्ति पर जिलाधिकारी आवेदन को निम्नलिखित शर्तों पर एक समय में अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकता है

१ - नदी तल के खनिज हेतु ३० सितम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक मानसून अवधि में

3. After clicking on **Apply Now** in the details page the applicant will land on the login page. If the applicant already has a login he/she can login using his/her email id and password. If he/she doesn't have a login he/she will have to create a login by clicking on the **"Sign Up"** button highlighted in **Red** in the following screen shot.

UP MINE MITRA

Online Services for Citizen
An Initiative of Directorate of Geology & Mining, GoUP

Don't have an account yet? [Sign Up](#)

An initiative to bring transparency in the process of removal of mineral from Niji Bhoomi, Krishi bhoomi or basement. Issue stock license and deed execution etc.

Building / Development Projects

Krishi Bhoomi

Stock License

Niji Bhoomi

Mining Plan

Deed Execution

Login

Username

Password

☐ Remember Me

[Forgot Password ?](#)

[Sign In](#)

Copyright © 2020-21 UPMine MITRA by Directorate of Geology & Mining, GoUP

4. On clicking the **Sign Up** button on login screen the applicant will land on this page. He/she will have to enter his/her details asked for, on the page. All fields are mandatory. Please note that Phone Number and email Id fields are Unique and Password must be at least 6 characters long.

UP MINE MITRA

Online Services for Citizen
An Initiative of Directorate of Geology & Mining, GoUP

Already have an account ? [Login](#)

Register

Name	Email	PhoneNumber
<input type="text" value="Ramesh"/>	<input type="text" value="ramesh.pannu@gmail.com"/>	<input type="text" value="9882737393"/>
Password	Confirm password	District
<input type="password" value="....."/>	<input type="password" value="....."/>	<input type="text" value="Banda"/>
Address		
<input type="text" value="HOUSE NO.6880,RAJENDRA NAGAR,NARAINI ROAD,ATARRA,DISTRICT-BANDA"/>		

[SIGN UP](#)

Copyright © 2020-21 UPMINE MITRA by Directorate of Geology & Mining, GoUP

5. After registration the applicant will have to verify his/her mobile numbers using OTP sent to their phone number entered at the time of registration. If for any reason he/she doesn't receive the OTP he/she can click on Resend OTP to get the OTP again on the mobile. After entering the OTP in **"Enter OTP"** box highlighted in **Red** he/she will have to click on the **Blue "Verify OTP"** button.

UP **MINE MITRA**

Online Services for Citizen
An Initiative of Directorate of Geology & Mining, GoUP

Don't have an account yet? [Sign Up](#)

Verify Phone Number

Enter OTP

Resend OTP

Verify OTP

6. After verification the applicant has to login to proceed for filling the application form.

UPMINE MITRA
Online Services for Citizen
An Initiative of Directorate of Geology & Mining, GoUP

Don't have an account yet? [Sign Up](#)

An initiative to bring transparency in the process of removal of mineral from Niji Bhoomi, Krishi bhoomi or basement. Issue stock license and deed execution etc.

- Building / Development Projects
- Krishi Bhoomi
- Stock License
- Niji Bhoomi
- Mining Plan
- Deed Execution

Login

Username

Password

☐ Remember Me

[Forgot Password ?](#)

[Sign In](#)

Copyright © 2020-21 UPMine MITRA by Directorate of Geology & Mining, GoUP

7. After login, the applicant lands on the application form page. All fields in the form are mandatory and the applicant has to fill them all and attach all required documents. After doing so he/she will have to click on the **Green “Save”** button in the bottom right corner of the page.

खनिजों का भण्डारण
(नियमावली - २०१८, नियम - ५(१))

१०० घन मी० से अधिक खनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन

आवेदन का जनपद *
Agra

आवेदक का नाम *
Ramesh

आवेदक का पता *
HOUSE NO.6880, RAJENDRA NAGAR, NARAINI ROAD DISTRICT-AGRA

आवेदक की श्रेणी *
Select

मोबाइल *
09452314318

व्यवसाय तथा कारोबार की प्रकृति *
business

ईमेल *
applicantuser@margsoft.com

मालिक का लिंग?
☒ पुरुष ☐ महिला

आवेदक की राष्ट्रियता *
Indian

डिन न० *
321312321232

आवेदक के डिन की कॉपी अपलोड करें *
Choose File my-passport-photo (1).jpg

☒ बालू
खनिज की मात्रा (घन मी०)
12

☒ मोरम
खनिज की मात्रा (घन मी०)
12

☒ बजरी
खनिज की मात्रा (घन मी०)
14

☒ बोल्डर
खनिज की मात्रा (घन मी०)
10

Dashboard

Applications

Vehicle

✓ पत्थर

खनिज की मात्रा (घन मी०)

50

✓ मिट्टी

खनिज की मात्रा (घन मी०)

100

✓ मिट्टी

खनिज की मात्रा (घन मी०)

60

✓ लाल मोरम

खनिज की मात्रा (घन मी०)

33

✓ पट्टिया

खनिज की मात्रा (घन मी०)

70

✓ खण्डा

खनिज की मात्रा (घन मी०)

50

अवधि जिसके लिए अनुज्ञापि अपेक्षित है

4

खनिज के भण्डारण का उद्देश्य

विक्रय हेतु

भण्डारण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के विवरण -

जनपद *

Agra

तहसील

Please select

ग्राम/नगर

AGRA

मोहल्ला

New colony

अवस्थान

Ramesh

आवेदन का शुल्क -

चालान संख्या *

54545

चालान की दिनांक *

2020-09-21

चालान शुल्क *

10000

आवेदन शुल्क का चालान (रु १०,०००/-) अपलोड *

Choose File Web.config

दस्तावेज़ अपलोड करें / विवरण -

क्या आवेदक भण्डारण की भूमि में सतही अधिकार रखता है ? हाँ या नहीं

हाँ

खसरा/खतौनी अपलोड *

Choose File Web.config

Dashboard

Applications

Vehicle

अवस्थान

Ramesh

आवेदन का शुल्क -

चालान सख्या *

54545

चालान की दिनांक *

2020-09-21

चालान शुल्क *

10000

आवेदन शुल्क का चालान (₹ १०,०००/-) अपलोड *

Choose File Web.config

दस्तावेज़ अपलोड करें / विवरण -

क्या आवेदक भण्डारण की भूमि पे सतही अधिकार रखता है ? हाँ या नहीं

हाँ

खसरा/खतौनी अपलोड *

Choose File Web.config

भण्डारण के लिए उपयोग होने वाली भूमि का खसरा मानचित्र अपलोड *

Choose File Web.config

चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड *

Choose File Web.config

कंपनी/फर्म रजिस्ट्रेशन पेपर

Choose File Web.config

जियो इमेज अपलोड

Choose File Web.config

घोषणा -

☒ मैं/हम कभी चोरी या तस्करी या अवैध खनन या अवैध परिवहन या अवैध खनिज भण्डारण से सम्बंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में सिद्ध दोषी नहीं ठहराये गए हैं।
 ☒ मैं/हम आवेदन के जनपद में किसी खदान का पट्टेधारक नहीं है

☒ भण्डारण का स्थान सम्बंधित खनिज के शोत्र से ५ कि० मी० के धरे में नहीं है ।
 ☒ मैं/हम एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वांछित अभिलेख/मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य रहूँगा।

Back

Save

8. After saving the form the applicant lands on his dashboard and sees two icons

a) **Eye Icon**: - Used to view details filled by him/her and the other

b) **Edit Icon**: - Used to edit the application form.

This option is available to the applicant till he/she has not clicked on “**Submit Application**” button on the screen which appears when you click on the **Eye Icon**.

The screenshot shows the UPMineMitra dashboard. On the left is a dark sidebar with 'Dashboard', 'Applications', and 'Vehicle' options. The main area has an orange header with the logo and a 'Press F11 to exit full screen' button. Below the header is a search bar with fields for 'Application Name', 'Tehsil Name', and 'District Name', and a green 'Search' button. The main content is a table of applications. The table has columns: Application, Purpose, Applicant, Date, Status, and Action. The 'Action' column contains icons for viewing (eye) and editing (pencil). The row for application 2020/9/21/462 is highlighted with a red border, and its 'Eye' and 'Edit' icons are also highlighted with a red border.

Application	Purpose	Applicant	Date	Status	Action
2020/9/21/469	Building/Development Projects	Applicant Fifty	21-09-2020	Forward To MO	
2020/9/21/467	Building/Development Projects	Mohan Singh	21-09-2020	Response From MO	
2020/9/21/466	Building/Development Projects	Applicant User Project Test Basement	21-09-2020	Saved	
2020/9/21/465	Building/Development Projects	Vijay Sharma	21-09-2020	Forward To MO	
2020/9/21/464	Building/Development Projects	Applicant User Project	21-09-2020	Saved	
2020/9/21/458	Building/Development Projects	Test Demo Test	21-09-2020	Approved	
2020/9/18/457	Building/Development Projects	Sidhart	18-09-2020	Chalan Rejected	
2020/9/18/456	Building/Development Projects	Testbasementshiva	18-09-2020	Submit Chalan	
2020/9/21/470	Stock License>100 cubic meters	Ramesh	21-09-2020	Saved	
2020/9/21/462	Mitty< 100 cubic meters	persontest22	21-09-2020	Approved	
2020/9/21/461	Mitty< 100 cubic meters	partner	21-09-2020	Approved	
2020/9/21/460	Mitty< 100 cubic meters	tt	21-09-2020	Approved	

9. On clicking the **Eye Icon** he/she sees the popup as shown in the screen shot below. To submit the application for processing he/she will have to click on the **Green “Submit Application”** button.

The screenshot displays the UPMineMitra web application interface. A modal popup titled "आवेदनपत्र का विवरण" (Application Form Details) is open, showing the following information:

आवेदक:-
 आवेदक का नाम :- RAMESH
 जनपद :- BANDA
 तहसील :- BANDA
 आवेदक का पता :- HOUSE NO.6880,RAJENDRA NAGAR,NARAINI ROAD,ATARRA,DISTRICT-BANDA
 आवेदक का लिंग :- MALE

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है:-

खनिज का नाम	खनिज की मात्रा
बालू	100.00 (एन मी०)
मोरम	200.00 (एन मी०)
बजरी	201.00 (एन मी०)
बोल्डर	111.00 (एन मी०)
पत्थर	500.00 (एन मी०)

प्रार्थी के अभिलेख:-

- कंपनी का मेमोरेडम आर्टिकल की कॉपी
- आवेदक के आधार कार्ड/डिन न० की कॉपी
- एपीकेशन फीस चालान
- भण्डारण के लिए उपयोग होने वाली भूमि का खसरा मानचित्र
- चरित्र प्रमाण पत्र
- जियो इमेज अपलोड की कॉपी

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	अवस्थान
1	RAMESH	BANDA	BANDA	NEW COLONY			Ramesh

भागीदारों का विवरण :-

At the bottom right of the popup, there are two buttons: "Close" and "Submit Application". The "Submit Application" button is highlighted with a green border and contains a green checkmark icon.

10. MO's entries begin here.

Saturday, 3 Oct, 2020 10:58:08 AM

About UPMine MitraRegisterLoginSupport



Online Services for Citizen
An Initiative of Directorate of Geology & Mining, GoUP

Apply For Online Services



Stock License (खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति)

१०० घन मीटर से ज्यादा खनिज के भण्डारण की अनुज्ञप्ति के लिए ।

Apply Now



Building/Development Projects

भवन / विकास परियोजना

भवन विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में खुदाई के दौरान प्राप्त उपखनिजों के निस्तारण हेतु।

Apply Now



Niji Bhoomi

निजी भूमि

नदी तल स्थित निजी भूमि, जिसमें बातू या मोरस या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो।

Apply Now



Krishi Bhoomi

कृषि भूमि

भूमिधारी कृषिकीया भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बातू/मोरस/बजरी/बोल्टर या इनमें से कोई भी, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु।

Apply Now



Mineral Retailer Registration

फुटकर उपखनिज विक्रेता पंजीकरण

१०० घन मीटर से कम खनिज के भण्डारण के पंजीकरण हेतु।

Apply Now

Copyright 2020-21 UPMineMitra | Directorate of Geology & Mining, GoUP

User Manual – Stock License

18

THANKS



Directorate of Geology & Mining, GoUP



Uttar Pradesh Development Systems Corporation Ltd.

in association with



MARGSOFT Technologies (P) Ltd.



+91-9415408619



vivekgupta@margsoft.com